

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 8, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय विश्वाई, पशुपालन मंत्री, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के वीरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नसबंदी आपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में रख-रखाव के अभाव में सड़कों की जर्जर स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -
 - (क) विकासखण्ड बनखेड़ी में प्री मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये जाने, तथा
 - (ख) विकासखण्ड बनखेड़ी में महाविद्यालय खोले जाने,
- (2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
 - (क) ग्राम बानपुर रोड से बरीघाट तक सड़क निर्माण कराये जाने,
 - (ख) ग्राम बरेठी में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
 - (ग) झांसी टीकमगढ़ मार्ग के पुनोल गांव के पास बरगी नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (3) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य राजगढ़ जिले के-
 - (क) ग्राम पड़ोनिया में तालाब निर्माण कराये जाने,
 - (ख) ग्राम पड़ोनिया में उप स्वा. केन्द्र खोले जाने,
 - (ग) ग्राम पड़ोनिया से कोलूखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
 - (घ) ग्राम पीपल्याखेड़ी में तालाब निर्माण कराये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम पड़ोनिया में प्री मैट्रिक छात्रावास खोले जाने,

(4) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के-

- (क) ग्राम पल्सोड़ा के खेल मैदान को स्टेडियम में विकसित किये जाने,
- (ख) ईश्वर नगर से खेतलपुर तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
- (ग) उत्कृष्ट विद्यालय के पास रेल्वे लाईन पर बने पुल को चौड़ा किये जाने,
- (घ) लक्ष्मणपुरा के नाले को पक्का किये जाने,
- (ङ) राम-रहीम नगर की रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,
- (च) राम-रहीम नगर में ट्यूबवेल खनन किये जाने, तथा
- (छ) राम-रहीम नगर की गली नं. 5-6 में बिजली की व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री कमलेश जाटव, एडवोकेट, सदस्य, मुरैना जिले के-

- (क) तहसील पोरसा में सिविल कोर्ट खोले जाने,
- (ख) ग्राम अम्बाह के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल रजौधा को कालेज में उन्नयन किये जाने,
- (ग) शासकीय हाई स्कूल रछेड़ का उन्नयन किये जाने,
- (घ) शासकीय हाई स्कूल नगरा का उन्नयन किये जाने,
- (ङ) ग्राम रूअर के मा. वि. का उन्नयन किये जाने, तथा
- (च) शासकीय सामुदायिक स्वा. केन्द्र पोरसा को अपग्रेड कर सिविल अस्पताल बनाये जाने,

(6) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के-

- (क) मंडी बामौरा में शा. जलाऊ लकड़ी का डिपो खोले जाने,
- (ख) ग्राम खिमलासा में कन्या उ. मा. वि. खोले जाने,
- (ग) ग्राम दौलतपुर में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
- (घ) ग्राम चिकनौरा में हैण्ड पंप खनन किये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम गुलौबा में नलकूप खनन किये जाने,

(7) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके, सदस्य, बैतूल जिले के –

- (क) विकासखण्ड शाहपुर के भौरा- फोफल्या मार्ग के बीच पुल निर्माण किये जाने,
 - (ख) ग्राम नयेगांव के नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
 - (ग) ग्राम धौल से नएगांव के बीच नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
 - (घ) ग्राम भौरा में कन्या हायर सेकेण्ड्री एवं चिकित्सालय पहुच मार्ग के नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
 - (ङ) विकासखण्ड शाहपुर के माचना नदी पर वैराज निर्माण किये जाने, तथा
 - (च) ग्राम भौरा में नवीन उच्चतर माध्यमिक शाला प्रारंभ किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. वित्त मंत्री का वक्तव्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, दिनांक 23 जुलाई 2012 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 2070) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2013-2014 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा (क्रमशः) .

भोपाल :
दिनांक : 26 फरवरी, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा